



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई – मेन) यूनिट

प्रवेश सूचना जेईई (मेन) – 2017

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में जेईई एपेक्स बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों इत्यादि में पूर्वस्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पाँचवी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन)-2017 का आयोजन दिनांक 02/04/2017 (रविवार) को किया जाएगा।

गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, नागालैंड एवं ओडिशा राज्यों ने जेईई (मेन) प्रणाली को अपनाया है। इस प्रकार, इन राज्यों की इंजीनियरिंग संस्थाओं, जो पूर्व में अपने राज्य स्तरीय परीक्षा के आधार पर प्रवेश ले रही थी, में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को जेईई (मेन) - 2017 आवेदन फार्म ऑनलाईन भरने की सलाह दी जाती है।

जेईई(एडवांस्ड) के लिए जेईई(मेन) एक पात्रता परीक्षा भी होगी, जिसमें उन अभ्यर्थियों को बैठना होगा जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/आईएसएम धनबाद द्वारा संचालित पूर्वस्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। जेईई (एडवांस्ड) के बारे में सूचना के लिए, उम्मीदवारों को जेईई (एडवांस्ड) वेबसाइट www.jeeadv.ac.in को देखने की सलाह दी जाती है।

विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, शामिल होने के लिए पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा के शहर, पात्रता का राज्य कोड, आयु में छूट, प्रवेश के लिए पात्रता, आरक्षण नीतियां और महत्वपूर्ण तिथियाँ समाहित हैं, जेईई (मेन) वेबसाइट www.jeemain.nic.in पर 01/12/2016 से उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवारों से मि ; Dr वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करने और आवेदन करने से पूर्व उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है। जेईई (मेन) और जेईई (एडवांस्ड) के लिए पात्रता मापदंड भिन्न – भिन्न हैं। उम्मीदवारों से सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ने और जेईई (मेन) तथा जेईई (एडवांस्ड) के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार अपनी पात्रता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

सभी भारतीय नागरिक उम्मीदवारों के पास भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी, उनके सही विवरण वाला आधार कार्ड होना चाहिए। जेईई (मेन) – 2017 का आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवारों को जेईई (मेन) वेबसाइट पर अपना आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और gender डालना होगा जोकि (UIDAI) के डाटा से मिलान किया जाएगा। यदि इन विवरणों का मिलन नहीं होता है तो उम्मीदवार जेईई (मेन) – 2017 का आवेदन फार्म नहीं भर सकेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधार कार्ड पर अपना नाम, जन्मतिथि और gender का विवरण अपने स्कूल अभिलेखों के अनुसार होना सुनिश्चित कर लें। यदि इन विवरणों में कोई विसंगति है तो उम्मीदवार को अपने आधार डाटा या स्कूल अभिलेखों, जैसी भी स्थिति हो, में इसका तुरंत सुधार करा लेना चाहिए।

इच्छुक उम्मीदवारों को केवल जेईई (मेन) वेबसाइट www.jeemain.nic.in के माध्यम से ही आवेदन करना है। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया 01/12/2016 से आरंभ होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 02/01/2017 है तथा शुल्क का भुगतान 03/01/2017 तक किया जा सकता है।

अधिशासी निदेशक (JAB)

एच-149, सेक्टर – 63, नोएडा, जिला – गौतम बुध नगर – 201309 (उ.प्र.)

फोन: 7042399520, 7042399521, 7042399525, 7042399526, 7042399529

वेबसाइट: www.jeemain.nic.in, ई-मेल: jeemain@nic.in